



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, सितम्बर 21—सितम्बर 27, 2008, शनिवार/भाद्र 30—अश्विन 5, 1930  
No. 31] NEW DELHI, SEPTEMBER 21—SEPTEMBER 27, 2008, SATURDAY/BHADRA 30—ASVINA 5, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2008

आ. अ. 77.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग अरुणाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री कं. के. शर्मा, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री येशी तसरिंग, आई.ए.एस. (एएम : 1983) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगामी आदेशों तक के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री येशी तसरिंग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री येशी तसरिंग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रधान, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं. 154/अरुण/2008 का प्रशासन]

आदेश से.

एस. आर. कार, अवर सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

New Delhi, the 19th September, 2008

**O. N. 77.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 133 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Arunachal Pradesh hereby nominates Shri Yeshi Tsering, IAS (AM: 1983), as the Chief Electoral Officer for the State of Arunachal Pradesh with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri K. K. Sharma, IAS.

2. Shri Yeshi Tsering shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Arunachal Pradesh which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Yeshi Tsering while functioning as the Chief Electoral Officer, Arunachal Pradesh shall not hold any additional charges whatsoever under the Government of Arunachal Pradesh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154 ARC/N 2008-P. Admin.]

By order,

S. R. KAR, Under Secy.